



::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क::  
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE



सत्यमेव जयते

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2<sup>nd</sup> Floor, GST Bhavan

रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road

राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: commrappl3-cexamd@nic.in

रजिस्टर्ड डाक ए.डी.द्वारा

DIN- 20230364SX0000111661

क	अपील / फाइल संख्या/ Appeal / File No.	मूल आदेश सं / O.I.O. No.	दिनांक/Date
	GAPPL/COM/STP/2828/2022	348/AC/NIS/BVR-3/2022-23	8/25/2022

अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

**BHV-EXCUS-000-APP-108-2023**

आदेश का दिनांक / Date of Order:	जारी करने की तारीख / Date of issue:
28.03.2023	31.03.2023

श्री शिव प्रताप सिंह, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /  
Passed by Shri Shiv Pratap Singh, Commissioner (Appeals), Rajkot.

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/ वस्तु एवं सेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधामा द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: /  
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham:

घ अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellant & Respondent :-

**RUDRAX CONSTRUCTION CO. A-1, NAGAR PALIKA SHOPPING CENTER,, OPP-MADHAV BAG, UNA-362560**

इस आदेश (अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है /  
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है /

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to: -

(i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर.के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए /

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तल, बहुमाली भवन असारवा अहमदाबाद- 380016 को की जानी चाहिए /

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2<sup>nd</sup> Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा /

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/- Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमावली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा /

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.



- (i) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 of the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.
- (ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।  
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किं गए शुल्क" में निम्न शामिल है
- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम  
(ii) सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि  
(iii) सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम
- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं० 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होंगे। /

For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :

- (i) amount determined under Section 11 D;  
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;  
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

- (C) भारत सरकार कोपुनरीक्षण आवेदन :

**Revision application to Government of India:**

इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गत अवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। /

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

- (i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में। /  
In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse
- (ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। /  
In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
- (iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। /  
In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
- (iv) सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (नं० 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। /  
Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
- (v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साध्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। /  
The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-in-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
- (vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए।  
जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो रूपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए।  
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
- (D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various umbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
- (E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। /  
One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.
- (F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। /  
Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
- (G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट [www.cbec.gov.in](http://www.cbec.gov.in) को देख सकते हैं। /  
For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website [www.cbec.gov.in](http://www.cbec.gov.in).



**:: अपील आदेश / ORDER-IN-APPEAL ::**

M/s. Rudrax Construction Co., Una (hereinafter referred to as "Appellant") has filed the present Appeal against Order-in-Original No. 348/AC/NIS/BVR-3/2022-23 dated 25.08.2022 (hereinafter referred to as 'impugned order') passed by the Assistant Commissioner, Central GST Division-3, Bhavnagar (hereinafter referred to as 'adjudicating authority').

2. The facts of the case, in brief, are that the Income Tax Department shared the third-party information/ data based on Income Tax Returns/ 26AS for the Financial year 2014-15 of the Appellant. Letter dated 22.09.2020 was issued by the Jurisdictional Range Superintendent requesting the Appellant to provide information/documents viz. copies of I.T. Returns, Form 26AS, Balance Sheet (including P&L Account), VAT/ Sales Tax Returns, Annual Bank Statement, Contracts/ Agreements entered with the persons to whom services provided etc. for the Financial year 2014-15. However, no reply was received from the Appellant.

3. In absence of data/ information, a Show Cause Notice dated 25.09.2020 was issued to the Appellant, demanding Service Tax and cess to the tune of Rs. 1,01,548/- under Section 73(1) of the Finance Act, 1994 (hereinafter referred to as 'the Act') alongwith interest under Section 75 of the Act. It was also proposed to impose penalties under Section 77(1)(a), 78, 77(2) and 77(1)(c) of the Act upon the Appellant.

4. The adjudicating authority vide the impugned order confirmed Service Tax demand of Rs. 1,01,548/- under Section 73(1) along with interest under Section 75 of the Act, imposed penalty of Rs. 1,01,548/- under Section 78 of the Act, imposed penalty of Rs. 1,000/- each under Section 77(1)(a) and 77(2) of the Act.

5. Being aggrieved, the Appellant has preferred the present appeal on various grounds that they are a partnership firm engaged in the business of government contractor. The letter dated 22.09.2020 was never served to them. They came to know about this letter only from the Show Cause Notice. Without service of letter, giving proper opportunity and time to reply, after three days of letter, Show Cause Notice was issued on 25.09.2020. In their ITR and 26AS, they have gross receipt under Section 194C of the Income Tax Act was Rs. 8,21,58,297/- out of which receipt of Rs. 8,21,583/- has been shown as taxable. It is nowhere mentioned in the Show Cause Notice that how this figure, under which service, has been worked out. They have submitted their written reply dated 29.04.2021 informing that they are government contractor and providing services to central/ state government and main contractors which are exempt



*Shing*

under entry No. 12(e), 12(A) and 29(h) of the Notification No. 25/2012-Service Tax dated 20.06.2012. They have also submitted hard copies of contract work income ledger, profit and loss account, balance sheet, ledger of main contractors, as well as through email, with their written reply to the Adjudicating Authority. They further stated that the Show Cause Notice is time barred, impugned order is without considering the threshold limit, prejudicial to revenue and passed without proper inquiry, the impugned order is non-speaking one without considering submission and documents, the services are exempted. No Service Tax, interest and penalties are payable by them.

6. The matter was posted for hearing on 20.03.2023. Advocate Jignesh Vyas appeared for personal hearing and submitted that the appellant had provided works contract service for public roads and to the state/ local governments apart from transport service using his own dumper for a small turnover value. All these services are exempt from the Service Tax. He handed over additional written submission with supporting documents such as ledger, balance sheet, profit & loss account, agreements etc. and requested to set aside the Order-In-Original.

6.1 The Advocate on behalf of the Appellant handed over additional written submission wherein he stated that the Show cause notice has been issued on 25/09/2020 and served after 30/09/2020 and the time period of issuing show cause notice for five years is already expired for April-2014 to Sept-2014 on 24/10/2019 and for 1<sup>st</sup> Octo-2014 To 31st March-2015 on 24<sup>th</sup> April, 2020. Thus show cause notice is after five years and it should be dropped. As per show cause notice Rs.821583/- has been calculated as taxable. Show cause notice does not explain that how this amount is calculated Or from which month it belongs. This amount is from the Month April-14 to Sept-14 and the extended time of sept-14 is already expired on 24/10/2019.

6.2 The Income tax department has not provided any information about nature of service then how Service tax authority has known that service provided by Appellant is not exempted and thus Show cause notice is not showing true and correct position or issued on assumption base and is not sustainable. They relied upon the judgment of Ram Steel Rolling and forging Mill V CCE Mumbai-II (2006) 204 ELT 87, (Cestat, Mumbai) as per the judgment principal established that SCN cum demand notice should be based on proper investigation by the officials and duly supported by valid documentary evidence. In the present case no proper investigation has been made neither any supporting evidence has been found or attached and only based on 26AS and ITR, show cause notice has been issued without quantification. So show cause notice is clearly violating the basic principles of section 73 and it should be declared as time barred, illegal and



*(Handwritten signature)*

void. In support of the above contentions, he has also referred to the unreported decision of Hon'ble CESTAT in the case of Pappu Crane Service v. Commissioner (Service Tax Appeal No.70707 of 2018-[DB]), SARDA ENERGY & MINERAL LTD. Versus COMMR. OF CENTRAL EXCISE, RAIPUR-I Final Order No. A/57873/2013-SM (BR), dated 1-10-22013 .2014 (35) S.T.R. 946 (Tri. - Del.).

6.3 The Show Cause Notice is Invalid since the same can be issued when officer is sure that taxable service has been provided and tax has been payable. He shall follow all previous procedure before issuing show cause notice. But here officer has no details, which service has been provided by Appellant, provided service is exempted or taxable and only on the basis of 26AS and Income Tax data notice has been issued. They relied the case of SHUBHAM ELECTRICALS Versus COMMISSIONER OF C. EX. & S.T., ROHTAK. 2015 (40) S.T.R. 1034 (Tri. - Del.). They have provided Services which are Exempted. Details of services provided by appellant and exemption entry claimed are as under:

Sr. No.	Details of Service Provided	Main Contractor	Final Service Receiver	Amount	Exemption under entry no. of Noti 25/2012
1	Maintenance, Repair, Construction, Re-surfacing and Strengthening of public road (Ledger-Works Contract Income Diu)	-R. M. Dasa -B. D. Sorathiya -Hari Om Construction	P.W.D. Department - Diu	43513034	29(h) for appellant as sub-contractor. 13(a) for main contractor
2	Maintenance, Repair, Construction, Re-surfacing and Strengthening of public road (Ledger -Contract Income)	Self	Panchayat R&B Division, Junagadh	13240047	13(a)
3	Construction of Angavadi Buildings (Ledger -Contract Income)	Self	Panchayat R&B Division, Junagadh	5959022	12(a)
4	Leveling, cleaning construction of Civil structure for flag hosting and asphalt carpeting of flag area (Ledger -Contract Income)	Self	Deputy. Executive Engineer, R&B, Kodinar	108984	13(a)
5	Widening and re-carpeting of Roads, providing single-double pole signs, Providing spring posts (Ledger -Contract	Self	Public work department - Diu	7234981	13(a),12(a)

*Handwritten signature*



	Income-Diu)				
6	Transportation service using self-owned Dumper  (Ledger -Work Contract Income)	Self	M/s. K. V. Barad  Infrastructur e  Kodinar	343351	Sec.66D(p)
7	Special repairing, Repairing and strengthening of public roads  (Ledger -Works Contract Income)	-R. M. Dasa  -Spiral Construction	Executive Engineer, Road and Building Department- Junagadh	13200790	29(h) for appellant as sub-contractor.  13(a) for main contractor
	<b>Total Turnover</b>			<b>83600209</b>	

6.4 As per show cause notice Rs.821583/- is considered as taxable but basic thresh hold limit of Rs.10 Lakhs is available to appellant so show cause notice is issued without considering thresh hold limit. Order is Prejudicial to Revenue. Order-In-Original is non-speaking and without considering submitted documents. Interest should not be charged, penalty for non-registration should not be imposed, penalty under Section 78 should not be imposed and penalty under section 77(2) should not be imposed upon them.

7. I have carefully gone through the case records, impugned order and appeal memorandum filed by the Appellant. I find that Show Cause Notice had been issued without verifying any data or nature of services provided by the Appellant as the same had been issued only on the basis of data received from the Income Tax department. The Adjudicating Authority has confirmed the demand of Service Tax vide impugned order without considering the submission of the Appellant.

8. I find that the main issue that is to be decided in the instant case is whether the activity carried out by the Appellant is covered under exemption and as to whether the amount received for providing the services is taxable, or otherwise.

9. On verification of Tax Audit Report for the year 2014-15, there is mention of Sector 'Contractors', sub-sector 'Civil Contractors' as nature of business under Part-B, Sr. No. 10 of Form 3CD. In profit & loss account for the year 2014-15, there is mention of income by sales to the tune of Rs. 8,36,00,209/-. On verification of Form 26AS, there is income from various parties viz. Sardar Sarovar Narmada Nigam Ltd., B D Sorathia and Company, Hariom Construction Co., Executive Engineer R&B Division, Junagadh, Executive Engineer, PWD Division-II, Diu, R M Dasa Infrastructure Pvt. Ltd. The Appellant also provided copies of work orders/ contracts etc. wherein it has been mentioned that the



*[Handwritten signature]*

Appellant has carried out work relating to construction of roads/ government buildings directly to the Government and through the main contractors also. They have also provided transportation of goods through their dumper without issuance of consignment notes. The said services provided by the Appellant are exempted by virtue of Sr. No. 12(a), 13(a) and 29(h) of the Notification No. 25/2012-Service Tax dated 20.06.2012 and under Section 66D(P) of the Act. Therefore, I find that the Appellant is not liable to Service Tax since the services provided by them are either exempted or falling under negative list of services.

10. In view of above, I set aside the impugned order and allow the appeal filed by the Appellant.

11. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

11. The appeal filed by Appellant is disposed off as above.

सत्यापित / Attested



(शिव प्रताप सिंह) (Shiv Pratap Singh),  
18-3-23

आर. अंत. बोरीचा / R. S. BORIC आयुक्त (अपील) / Commissioner (Appeals)  
अधीक्षक / Superintendent

By R.P.A.D. के. व. एवं सेवा कर अपीलस, राजकोट  
CGST Appeals, Rajkot

To, M/s. Rudrax Construction Co., A-1, Nagar Palika Shopping Centre, Opp.: Madhav Bag, At: Una-362560.	सेवा में, मे. रुद्राक्ष कन्स्ट्रक्शन कंपनी, A-1, नगर पालिका शॉपिंग सेंटर, माधव बाग के सामने, उना-362560।
---	---

प्रतिलिपि :-

- 1) मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर आयुक्तालय, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3) अपर आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मण्डल-3, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5) गार्ड फाइल।



